

क़तर में कार्य-संबंधित चोट लगने के प्रमुख 5 कारण

#5 चोट लगना, दब जाना, टक्कर होना



- ऐसी मशीन न चलाएं जिसका उपयोग करने के लिए आपको प्रशिक्षित और अधिकृत न किया गया हो।
- कभी भी मशीन बिना सुरक्षा कवच पहने न चलाएं और सुनिश्चित करें कि आपने उपयुक्त पीपीई पहनी हो।
- सदा सुरक्षित कार्य प्रणाली और चेतावनी संकेतों का पालन करें - कभी भी शॉर्ट कट न अपनाएं।

सुरक्षा के लिए बात करें: अपने सहकर्मियों और सुपरवाइजर को अपनी सुरक्षा चिंताएं बताएं।